

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2014—श्रावण 31, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.